

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- जनवरी 11,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 101 वाहनों का चालान, 15 वाहनों से कुल 10900/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 15 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त बाबूराम पुत्र मोतीराम नि0 सूरपार नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-04/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र सहदेव नि0 डोमरा थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-16/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता 1. माधुरी पत्नी बाबूलाल नि0 भारी वैसी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-10/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

2. कबूतरा देवी पत्नी राजेन्द्र नि0 भारी वैसी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-11/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. समदेव पुत्र जमुना नि0 कवलपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-07/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

2. रामसुभम लोध पत्नी अशर्फी नि0 कवलपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-08/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

3. राधिका पत्नी नारद नि0 कवलपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-09/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

3. सरिता पत्नी जितेन्द्र नि0 कवलपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-10/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

***पशु क्रूरता अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त प्रेमनरायन पुत्र मोइन प्रसाद नि0 मकहर थाना रूपनदेही जनपद नेपाल का बरगदवा थाना द्वारा 05 अदद बकरी को क्रूरता पुर्वक मारते – पीटते हुये ले जाने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 07/21 धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 10/11-1-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 30 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।